

Baghpat News: बागपत में 11 कुंतल नकली मावा पकड़ा, दिल्ली में सप्लाई करने की थी तैयारी



बागपत, जागरण संवाददाता। Baghpat News त्योहारी सीजन में सक्रिय मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापामारी कर 11 कुंतल सिंथेटिक मावा पकड़कर नष्ट कराया। इसके पांच नमूने लिए गए हैं, जिनकी लैब में जांच कराई जाएगी। दीपावली के आसपास नकली मावे का कारोबार कई गुना बढ़ जाता है।

दिल्ली ले जाया जा रहा था मावा

गुरुवार सुबह बड़ौत शहर की औद्योगिक पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक मावे से भरे कैंटर को रुकवाया गया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कैंटर में लदा 11 कुंतल मावा नकली है, जिसे मांगरौली गांव से दिल्ली ले जाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक महीपाल सिंह की सूचना पर एसडीएम सुभाष सिंह मौके पर पहुंचे और सैपलिंग संबंधी कार्रवाई को पूर्ण कराया।

गड़ढ़ा खुदवाकर दबवाया

इसके बाद नकली मावों को बुलडोजर में भरकर खाली मैदान में गड़ढ़ा खुदवाकर दबवाया गया। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने बताया कि मावे के पांच नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भिजवा जा रहा है। लैब रिपोर्ट आने के बाद आरोपित कैंटर चालक और संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

गांव-गांव धधक रही भट्टियों में तैयार हो रहा जहर

त्योहारी सीजन शुरू होते ही जिले के गांव-गांव में नकली मावा बनाने की भट्टियां धधकनी शुरू हो गई हैं। यहां न सिर्फ नकली मावा तैयार किया जा रहा बल्कि नकली सफेद रसगुल्ले, नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर भी बनाया जा रहा है। हर साल त्योहारी सीजन में इन भट्टी संचालकों के यहां छापेमारी की जाती है मगर प्रभावी कार्रवाई के अभाव में मिलावट का कारोबार धड़ल्ले से संचालित हो रहा है।

Source : <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/baghpat-baghpat-news-11-kuntals-of-fake-mawa-caught-in-baghpat-23137317.html>